



COVID-19 की प्रतिक्रिया में अगले नोटिस तक, ब्रैम्पटन सिटी हॉल और फैसिलिटीज के बंद होने की अवधि बढ़ाई गई

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (27 मार्च, 2020) – पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) के मार्गदर्शन के साथ और हमारे निवासियों व कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, सिटी हॉल (City Hall) और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की अन्य सभी फैसिलिटीज अगले नोटिस तक बंद रहेंगी।

सिटी फैसिलिटीज का बंद होना

सिटी हॉल, रेक्रिएशन एंड कम्युनिटी सेंटर (Recreation and Community Centres) और ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) ब्रांचों सहित सिटी की सभी फैसिलिटीज, अगले नोटिस तक बंद रहेंगी।

सिटी हॉल में 24-घंटे लॉबी (एलिवेटर, पार्किंग टिकट मशीन और चेक ड्रॉप बॉक्स के पास) खुली रहेगी और उसका बार-बार निरीक्षण किया जाएगा।

सिटी द्वारा संचालित कार्यक्रम

सिटी द्वारा संचालित किए जाने वाले सभी कार्यक्रम, अगले नोटिस तक रद्द कर दिए गए हैं। सिटी की फैसिलिटीज में होने वाले सभी सामुदायिक कार्यक्रम भी अगले नोटिस तक रद्द कर दिए गए हैं।

रेक्रिएशन प्रोग्रामिंग

सभी रेक्रिएशन प्रोग्रामिंग और किराए पर जगह लेकर होने वाले सभी कार्यक्रम, अगले नोटिस तक रद्द कर दिए गए हैं। किराए का पैसा अपने आप खातों में जमा हो जाएगा। कृपया अधिक जानकारी के लिए reconnects@brampton.ca पर संपर्क करें।

द रोज़ ब्रैम्पटन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थानों (Performing Arts Venues) में होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द अथवा स्थगित कर दिए गए हैं। इसके अलावा, मई में होने वाले प्रदर्शनों सहित, बाकी *द रोज़ प्रेजेंट्स 2019-2020 सीजन* भी रद्द अथवा स्थगित कर दिया गया है। परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थान भी अगले नोटिस तक जनता के लिए बंद कर दिए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.therosebrampton.ca पर जाएं या बॉक्स ऑफिस को boxoffice@brampton.ca पर ईमेल करके संपर्क करें।



महत्वपूर्ण सेवाएं

फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services), ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), ट्रैफिक सर्विसिज (Traffic Services), बाय-लॉ एन्फोर्समेंट (By-Law Enforcement), रोड ऑपरेशंस (Road Operations), पी.ओ.ए. कोर्ट्स (POA Courts) और सिक्योरिटी सर्विसिज (Security Services) सहित, सभी महत्वपूर्ण सेवाएं, हमारे समुदाय के सहयोग के लिए पहले की तरह ही जारी रहेंगी।

ब्रैम्पटन एनिमल शेल्टर (Brampton Animal Shelter) जनता के लिए बंद है। जानवरों को गोद लेने और गुम हुए जानवरों को वापस लेने की प्रक्रिया, केवल तय मुलाकात द्वारा की होगी।

कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन (Court Administration) में सुपरवाइजर, वैधानिक समय सीमाओं के मुताबिक, एन्फोर्समेंट एजेंसीज (Enforcement Agencies) द्वारा फाइल किए जाने केस स्वीकार करने के लिए रोज़ाना, कुछेक घंटों के लिए ऑफिस में रहेंगे। इस उद्देश्य के लिए फैसिलिटी के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक ड्रॉप बॉक्स रखा गया है। जरूरत होने पर यह, जनता द्वारा फाइल की जाने वाली अर्जियों के लिए भी उपलब्ध है।

हमारे कर्मचारियों और निवासियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा में मदद के लिए, फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहों और सीटों की अधिक बार सफाई करवा रही है और उन्हें रोगाणु मुक्त करवा रही है।

COVID-19 की प्रतिक्रिया में एमरजेंसी की स्थिति

24 मार्च को, सिटी काउंसिल (City Council) के साथ परामर्श करने के बाद और सिटी की एमरजेंसी मैनेजमेंट टीम (Emergency Management Team) की सिफारिश पर, मेयर पैट्रिक ब्राउन ने सिटी के एमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान (Emergency Management Plan) के अनुसार, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में एमरजेंसी की स्थिति होने (State of Emergency) की घोषणा की थी। यह घोषणा COVID-19 के प्रभावों को रोकने में मदद के लिए हमारे द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों में लचीलेपन व गति में वृद्धि करके, सिटी के एमरजेंसी प्रतिक्रिया संबंधी जारी प्रयासों में मदद करेगी।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, COVID-19 को गंभीरता से ले रही है और लगातार पील पब्लिक हेल्थ की सलाह का पालन कर रही है। बिल्कुल ताज़ा जानकारी www.peelregion.ca/coronavirus पर उपलब्ध है। सिटी लगातार इस स्थिति का निरीक्षण करती रहेगी और अधिक जानकारी उपलब्ध होते ही प्रदान करेगी। अपडेट्स के लिए, कृपया www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)
कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट
स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca